



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36 पटना, बुधवार, 16 भाद्र 1933 (श0)
7 सितम्बर 2011 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-10	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 11-18	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क ---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

11 अप्रैल 2011

सं० 2 स्था०-184/10-751-वि०सं०—श्री घनश्याम प्रसाद सिंह, अधीक्षक (चर्या संवर्ग) बिहार विधान-सभा सचिवालय जो वेतन बैंड PB-2. 9300-34800 रु० में प्रतिमाह रु० 23650 वेतन पाते हैं, को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 (क) के अन्तर्गत दिनांक 23 फरवरी 2011 से 2 मार्च 2011 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृति की जाती है तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 232 के अन्तर्गत दिनांक 3 मार्च 2011 से 25 मार्च 2011 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत की जाती है। उन्हें नियम 159 के तहत दिनांक 26 मार्च 2011 एवं 27 मार्च 2011 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

11 अप्रैल 2011

सं० 2 स्था०-08/05-741-वि०सं०—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा को महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या जी०ई० 12 बी०एल०ए०-XVIII-3-2476, दिनांक 21 जनवरी 2011 के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 248 (क) के तहत दिनांक 4 अक्टूबर 2010 से 11 अक्टूबर 2010 एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2010 से 10 दिसम्बर 2010 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ सेवा संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 2 अक्टूबर 2010, 3 अक्टूबर 2010, 11 दिसम्बर 2010 एवं दिनांक 12 दिसम्बर 2010 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

2 मई 2011

सं० 2 स्था०-210/09- 829/ वि०सं०—श्री रामशंकर प्रसाद सिन्हा, अवर सचिव (नि०सं०सं०), बिहार विधान-सभा को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-जी०ई० 12-BLA-XVI-14-2214, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 (क) के अधीन दिनांक 2 अगस्त 2010 से 27 अगस्त 2010 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 28 अगस्त 2010 एवं 29 अगस्त 2010 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

2 मई 2011

सं० 2 स्था०-51/11-832/ वि०सं०—श्री अशोक प्रसाद, अवर सचिव (प्रतिवेदन), बिहार विधान-सभा को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-जी०ई० 12-BLA-XIV-A-02-2046, दिनांक 10 नवम्बर 2009 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के

नियम 230 एवं 248 (क) के अधीन दिनांक 3 अगस्त 2009 से 12 अगस्त 2009 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 13 अगस्त 2009 के सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

2 मई 2011

सं० 2 स्था०-15/09-834-वि०सं०—श्री कृष्ण कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधान-सभा को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-जी०ई० 12-BLA-XVIII-18-2478, दिनांक 21 जनवरी 2011 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक 8 नवम्बर 2010 से 23 नवम्बर 2010 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

7 दिसम्बर 2010

सं० 1 स्था०-130/10-2209/वि०सं०—श्री सुबोध कुमार जायसवाल, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय को माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव के पद पर उनकी कोटि के वेतन बैंड PB-3 15600-39100 रुपये, ग्रेड वेतन-5400 रुपये में प्राप्त वेतन एवं अनुमान्य भत्ते पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्त किया जाता है।

इनका स्वत्वभार (Lien) सभा सचिवालय में बना रहेगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

24 नवम्बर 2010

सं० 2 स्था०-189/10-2138/वि०सं०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या वै०दा०नि०को० 22/वै०दा०-50-41/94-2033(22), पटना, दिनांक 2 नवम्बर 2010 के अनुसरण में श्री हरेराम मुखिया, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के तहत दिनांक 23 सितम्बर 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

22 नवम्बर 2010

सं० 1 स्था०-97/09-2118/वि०सं०—श्री नकी अहमद खॉं, प्रशाखा पदाधिकारी (अवधायक शाखा), बिहार विधान-सभा सचिवालय जो वेतन बैंड पी०बी०-3 Rs.15,600-39,100 रुपये में प्रतिमाह 23,070 रुपये वेतन पाते हैं, को बिहार सेवा संहिता के नियम-85 के तहत दिनांक 1 जुलाई 2010 से मूल वेतन का 3% की दर से 700 रुपये वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि की स्वीकृति दी जाती है तथा उक्त तिथि से 23,770 रु० वृद्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

22 नवम्बर 2010

सं० 2 स्था०-199/10-2111/वि०सं०—श्री सुखीलाल सुधांशु, अधीक्षक (टंकक संवर्ग) बिहार विधान-सभा सचिवालय जो वेतन बैंड-PB-2 9300-34800 रु० में प्रतिमाह 25,810 रु० वेतन पाते हैं, को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के अंतर्गत दिनांक 18 अक्टूबर 2010 से 26 अक्टूबर 2010 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

9 नवम्बर 2010

सं० 2 स्था०-120/09-2073/वि०सं०—श्री सुधीर कुमार गोईत, प्रशासी पदाधिकारी (चर्यालिपिक संवर्ग) बिहार विधान-सभा सचिवालय को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के अंतर्गत दिनांक 14 जून 2010 से 16 जुलाई 2010 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है तथा नियम-159 के तहत दिनांक 17 जुलाई 2010 एवं 18 जुलाई 2010 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

2 नवम्बर 2010

सं० 1 स्था०-72/05-2037/वि०सं०—संसदीय वेतन समिति की अनुशंसा को वित्त विभाग द्वारा अस्वीकार किये जाने एवं इसके फलस्वरूप सभा सचिवालय में उसके प्रभावी नहीं होने के कारण श्री संजय कुमार सिंह, प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा को प्रशासी पदाधिकारी के पद पर समायोजित करने संबंधी सभा सचिवालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं० 2248, दिनांक 23 दिसम्बर 2006 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया जाता है। श्री सिंह अपने पूर्व धारित जनसम्पर्क पदाधिकारी के पद पर बने रहेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

28 अक्टूबर 2010

सं० 2 स्था०-171/09-2019/वि०सं०—श्री अंजनी कुमार सिन्हा, प्रतिवेदक, बिहार विधान-सभा सचिवालय को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-जी०ई०:12-BLA-XVIII-22-533, दिनांक 28 जून 2010 के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 5 अप्रैल 2010 से 13 अप्रैल 2010 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 14 अप्रैल 2010 के सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

28 अक्टूबर 2010

सं० 2 स्था०-15/09-2014/वि०सं०—श्री कृष्ण कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधान-सभा सचिवालय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-जी०ई०: 12-BLA-XVIII-18-539, दिनांक 28 जून 2010 के आधार के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2010 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत की जाती है, तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 16 जनवरी 2010 से 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

20 अक्टूबर 2010

सं० 2 स्था०-183/10-1905/वि०सं०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/एम-2-5-1/99 खण्ड 1829 वि०(2), दिनांक 7 अप्रैल 2005 तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-पी०सी०सी० 22/ वै०दा०-50-05/95-1884(22), दिनांक 6 अक्टूबर 2010 के आलोक में श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर सचिव, बिहार विधान-सभा को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 जुलाई 2010 तक उनके कोष में संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

7 जनवरी 2011

सं० 2 स्था०-184/10-36/ वि०सं०—श्री घनश्याम प्रसाद सिंह, अधीक्षक (चर्या संवर्ग), बिहार विधान-सभा सचिवालय जो वेतन बैंड PB-2-9300-34800 रु० में प्रतिमाह 23650 रु० वेतन पाते हैं, को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 (क) के अन्तर्गत दिनांक 11 अक्टूबर 2010 से 15 नवम्बर 2010 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 232 के अन्तर्गत दिनांक 16 नवम्बर 2010 से 26 नवम्बर 2010 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत की जाती है। उन्हें नियम 159 के तहत दिनांक 27 नवम्बर 2010 एवं 28 नवम्बर 2010 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

6 जून 2011

सं०1 स्था० 170/2011-1172-वि०सं०—रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3 ए-2-वे० पु०-18/2009-7566, दिनांक 14 जुलाई 2010 जो सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1661, दिनांक 10 सितम्बर 2010 द्वारा सभा सचिवालय में लागू किया गया है, के तहत गठित विभागीय स्क्रिनिंग समिति की दिनांक 19 अप्रैल 2011 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वित्त विभाग की सहमति से कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, मार्शल, बिहार विधान-सभा सचिवालय को दिनांक 9 अगस्त 2009 से वेतन बैंड पी.बी.-03, 15600-39,100 रुपये ग्रेड वेतन-7600 रुपये में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ की स्वीकृति दी जाती है।

इस संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर कर्मियों को प्रदत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर ली/दी जाएगी।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
मु० जैनूल, उप-सचिव।

16 दिसम्बर 2010

सं० 2 स्था० 207/10-2261/ वि०सं०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3एम-2-5-1/99, खण्ड-1829 वि०(2), दिनांक 7 अप्रैल 2005 एवं उपार्जित अवकाश आदेयता संबंधी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग के पत्रांक-2078(22), दिनांक 15 नवम्बर 2010 के अनुसरण में श्री वीरेन्द्र मिश्र, सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 अक्टूबर 2010 तक संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त अवकाश वेतन पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के बराबर नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव।

24 जून 2011

सं० 1 स्था०-171/11-1321/वि०सं०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1661, दिनांक 10 सितम्बर 2010 द्वारा प्रवृत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2010 से संबंधित वित्त विभाग की संकल्प सं० 3ए-2-वे०पु०-18/2009-7566, दिनांक 14 जुलाई 2010 के तहत गठित विभागीय स्क्रिनिंग समिति द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में सभा सचिवालय के तत्कालीन सहायक सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी / सेवानिवृत्त प्र०प० सर्वश्री दुर्गानन्द झा, श्री अजय कुमार सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण विश्वकर्मा, श्री रंजन प्रभात, श्री रघुनाथ चौधरी (सेवा-निवृत्त) एवं श्री रवीन्द्र नाथ सिंह (सेवा-निवृत्त) को ए०सी०पी० (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना), 03 के तहत क्रमशः दिनांक 19 जून 2003, 19 जून 2003, 19 जून 2003, 19 जून 2003, 25 जून 2003 एवं 20 जून 2003 के प्रभाव से वेतनमान

6500-200-10,500 रु० में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) का लाभ प्रदान करते हुए संलग्न विवरणी में वेतन निर्धारण किया जाता है। किसी भी कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर कर्मियों को प्रदत्त प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर ली/दी जाएगी।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरeram मुखिया, अवर सचिव।

क्र.सं.	सरकारी सेवक का नाम, पदनाम	सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी० योजना 03 के तहत) की तिथि एवं अनुमान्य वेतनमान	प्रथम उन्नयन की तिथि को प्राप्त मूल वेतन	मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) 9 (1) के तहत देय लाभ	प्रथम उन्नयन की तिथि को निर्धारित वेतन	अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री दुर्गानन्द झा, प्रशाखा पदाधिकारी	19.06. 1991	19-06-2003 6500-200-10500/-	7075/-	175/-	19-06-2003 7300/-	01-06-2004 7500/- 01-12-2005 7700/-	दि० 02.12.04 को प्र०प० के पद पर प्रोन्नत परन्तु प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय नहीं क्योंकि प्रोन्नति पूर्व ए०सी०पी० योजना, 03 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है।
2.	श्री अजय कुमार सिन्हा प्र०प०	19.06. 1991	19-06-2003 6500-200-10500/-	7075/-	175/-	19-06-2003 7300/-	01-06-2004 7500/- 01-12-2005 7700/-	दि० 04.12.04 को प्र०प० के पद पर प्रोन्नत, परन्तु प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय नहीं क्योंकि प्रोन्नति पूर्व ए०सी०पी० योजना, 03 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है।
3.	श्री सत्येन्द्र नारायण विश्वकर्मा, प्र०प०	19.06. 1991	19-06-2003 6500-200-10500/-	6550/-	175/-	19-06-2003 6900/-	01-06-2004 7100/- 01-12-2005 7300/-	दि० 02.12.04 को प्र०प० के पद पर प्रोन्नत, परन्तु प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय नहीं क्योंकि प्रोन्नति पूर्व ए०सी०पी० योजना, 03 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है।
4.	श्री रंजनप्रभात, प्र०प०	19.06. 1991	19-06-2003 6500-200-10500/-	7075/-	175/-	19-06-2003 7300/-	01-06-2004 7500/- 01-12-2005 7700/-	दि० 02.12.04 को प्र०प० के पद पर प्रोन्नत, परन्तु प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय नहीं क्योंकि प्रोन्नति पूर्व

क्र.सं.	सरकारी सेवक का नाम, पदनाम	सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी० योजना 03 के तहत) की तिथि एवं अनुमान्य वेतनमान	प्रथम उन्नयन की तिथि को प्राप्त मूल वेतन	मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) 9 (1) के तहत देय लाभ	प्रथम उन्नयन की तिथि को निर्धारित वेतन	अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ए०सी०पी० योजना, 03 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है ।
5.	श्री रघुनाथ चौधरी, सेवानिवृत्त प्र०प० सेवा-निवृत्ति की तिथि 30.09.09	25.06. 1991	25-06-2003 6500-200-10500/-	7075/-	175/-	25-06-2003 7300/-	01-06-2004 7500/- 01-12-2005 7700/-	दि० 02.12.04 को प्र०प० के पद पर प्रोन्नत, परन्तु प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय नहीं क्योंकि प्रोन्नति पूर्व ए०सी०पी० योजना, 03 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है ।
6.	श्री रविन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त प्र०प० सेवा-निवृत्ति की तिथि 28.02.10	20.06. 1991	20-06-2003 6500-200-10500/-	7075/-	175/-	20-06-2003 7300/-	01-06-2004 7500/- 01-12-2005 7700/-	दि० 02.12.04 को प्र०प० के पद पर प्रोन्नत, परन्तु प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय नहीं क्योंकि प्रोन्नति पूर्व ए०सी०पी० योजना, 03 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

28 फरवरी 2011

सं० 2 स्था०-205/09-451-वि०स०—कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, मार्शल, बिहार विधान-सभा सचिवालय, जिनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 28 फरवरी 2011 है, की सेवा वित्त विभाग, बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में दिनांक 1 मार्च 2011 से 31 मई 2011 तक के लिए विस्तारित की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
गिरीश झा, प्रभारी सचिव,

18 मार्च 2011

सं० 1 स्था०-130/10-587/ वि०स०—अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव के दो पदों में से एक पद पर डॉ० नरेन्द्र पाठक (बाह्य व्यक्ति) को वेतन बैण्ड पी०बी०2-9300-34800 रुपये, पे बैण्ड का आरम्भिक प्रक्रम 13350 रुपये, ग्रेड वेतन 4800 रुपये में प्रतिमाह 18150 रुपये नियत वेतन पर समय-समय पर स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होगा, इसके अतिरिक्त इन्हें कोई

अन्य भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे पर दिनांक 10 दिसम्बर 2010 के प्रभाव से वर्तमान अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यन्त जो भी पहले हो तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

डॉ० नरेन्द्र पाठक का अधिक उम्र बिहार सेवा संहिता के नियम-84 के अधीन क्षम्य किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
मु० जैनूल, उप-सचिव ।

30 मई 2011

सं० 2 स्था०-100/09-1112/वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-दा०को०2/वे०दा० 50-05/96-417(22), दिनांक 24 मार्च 2011 के आलोक में श्री मो० नियाज अहमद, प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 “क” के अन्तर्गत दिनांक 6 अक्टूबर 2010 से 22 अक्टूबर 2010 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 23 अक्टूबर 2010 से 24 अक्टूबर 2010 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
ताराचन्द्र रजक, अवर सचिव ।

6 अप्रैल 2011

सं० 2 स्था०-54/11-727/ वि०स०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3/एम-2-5-1/99, खण्ड-1829 वि० (2), दिनांक 7 अप्रैल 2005 तथा वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक-पी०सी०सी० 22/वे०दा०-50-25/94-33(22), दिनांक 14 जनवरी 2011 के अनुसरण में श्री अवनीन्द्र नाथ मिश्र, सेवा-निवृत्त प्रशासी पदाधिकारी (पुस्तकालय), वि०वि०स०, पटना को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 दिसम्बर 2010 तक उनके कोष में संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

11 अप्रैल 2011

सं० 2 स्था०-92/09-747/ वि०स०—श्री लक्ष्मीकान्त झा, उप-सचिव, बिहार विधान-सभा को महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या जी.ई.12-बी.एल.ए.-XVII-06-2421, दिनांक 14 जनवरी 2010 के अनुसरण में बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 248 (क) के तहत दिनांक 19 अक्टूबर 2010 से 26 अक्टूबर 2010 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

27 जनवरी 2011

सं० 2 स्था०-258/06-198/वि०स०—सभा सचिवालय की अधिसूचना सं० 630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवर्तित वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3/एम-2-5-1/99, खण्ड-1829 वि०(2), दिनांक 7 अप्रैल 2005 तथा महालेखाकार, बिहार के कार्यालय के ज्ञापांक-जी०ई० 12-बी०एल०ए०-XVII-न्यू-9-2325, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 के आलोक में श्री शंभुदयाल सिंह, सेवानिवृत्त उप-सचिव, बिहार विधान-सभा को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 दिसम्बर 2010 तक उनके कोष

में संग्रहित 300 दिनों (तीन सौ दिनों) का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(कृषि गणना)

अधिसूचनाएं
31 मई 2011

सं० कृ०ग०सां० 3-2/2011-23/रा०—कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि वर्ष 2010-11 को संदर्भ वर्ष मानकर कृषि गणना 2010-11 कराने का निर्णय लिया गया है । राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों को कृषि गणना 2010-11 के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कृषि गणना के पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है ।

प्राधिकार	पदनाम
(1) समाहर्ता	जिला कृषि गणना पदाधिकारी
(2) अपर समाहर्ता	अपर जिला कृषि गणना पदाधिकारी
(3) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	उप-जिला कृषि गणना पदाधिकारी
(4) अनुमंडल पदाधिकारी	अनुमंडल कृषि गणना पदाधिकारी
(5) भूमि सुधार उप-समाहर्ता	अपर अनुमंडल कृषि गणना पदाधिकारी
(6) अंचल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी	अंचल/प्रखंड कृषि गणना पदाधिकारी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव ।

31 मई 2011

सं० कृ०ग०सां० 3-1/2011-25/रा०—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कृषि गणना 2010-11 के सफल क्रियान्वयन के निमित्त प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को राज्य कृषि गणना आयुक्त के रूप में नामित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव ।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त 2011

सं० 5/पी (यॉ०) 3-102/2005-1601—सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2003 में निहित प्रावधानों के आलोक में एवं दिनांक 1 अगस्त 2011 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्री रधुवीर झा, सेवा-निवृत्त सहायक अभियन्ता(यॉ०) (आई०डी०कोड०-एम० 0140) को निम्नरूपेण प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/सेवा-निवृत्ति की तिथि/आई0डी0कोड	सहायक अभियन्ता (यॉ0) के पद पर योगदान की तिथि	देय ए0सी0पी0			
			प्रथम		द्वितीय	
			वेतनमान्	प्रोन्नति की तिथि	वेतनमान्	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री रघुवीर झा, सेवा-निवृत्त सहायक अभियन्ता(यॉ0) वरीयता क्रमांक-30/2008 सेवा-निवृत्ति की तिथि-31-7-2006 आई0डी0कोड एम0-0140	18-12-1975	रु0 10,000-15,200	09-8-1999	रु0 14,300-18,300	18-12-1999

2. यह सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन है:-

(i) यह योजना दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है ।

(ii) उक्त पदाधिकारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम-22(i) ए0(ii) के प्रावधानों के अनुसार होगा ।

3. यह सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।

4. मंत्रिमंडल निगरानी/विभागीय निगरानी स्वच्छता /लघु जल संसाधन विभागीय निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल पाए जाने पर इस वृत्ति उन्नयन का लाभ तदनुसार तुरन्त प्रभावी होगा ।

5. उपर्युक्त कर्मों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मों को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
तौहीद हसन अंसारी, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 25—571+185-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

10 दिसम्बर 2010

सं० 1 स्था०-168/2006-2221/वि०सं०—चूँकि बिहार विधान-सभा सचिवालय में बिहार विधान-सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा आदेश, 2010 लागू है ;

और, चूँकि उक्त आदेश के खण्ड 3 एवं 5 में निहित प्रावधानों के आलोक में सभा सचिवालय के निजी सहायक सम्बर्ग के अवर सचिव स्तर के पदाधिकारियों के पदनाम को परिवर्तित कर प्रधान आप्त सचिव के पदनाम से नामित किया जाना है ;

और, चूँकि निजी सहायक सम्बर्ग के अवर सचिव के सभी धारित पद अपरामर्शित पद हैं और वित्त विभाग से संचिका संख्या 01 स्था०-113/2008 में प्राप्त परामर्श और सभा सचिवालय द्वारा उक्त परामर्श को स्वीकार किए जाने के कारण सभी वैसे अपरामर्शित पद उसके पद धारकों की सेवानिवृत्ति, पद त्याग अथवा मृत्यु पर समाप्त हो जाना है ;

और, चूँकि ऐसे पद धारकों के पदनाम में परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक क्षति होने की संभावना है ;

अतएव, अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा एतद् द्वारा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्या के निराकरण हेतु बिहार विधान-सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा आदेश, 2010 के खण्ड 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन जारी करते हैं :-

बिहार विधान-सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) आदेश, 2010

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।- (I) यह आदेश “बिहार विधान-सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) आदेश, 2010” कहा जा सकेगा ।

(II) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. आदेश के खण्ड 5 में परंतुक का जोड़ा जाना ।- बिहार विधान-सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा आदेश, 2010 के खण्ड 5 के मूल प्रावधान के बाद एक परंतुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाएगा :-

“परन्तु यह कि अवर सचिव (निजी सहायक सम्बर्ग) के अपरामर्शित पदों पर कार्यरत पदाधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति, पद त्याग अथवा मृत्युपर्यंत, इसमें जो पहले हो, तक अपने पूर्व के नामित पद पर बने रहेंगे और जैसे-जैसे उनके द्वारा उपर्युक्त किसी कारण से पद रिक्त किया जाएगा वैसे-वैसे वह पद समाप्त होता जाएगा ।”

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव ।

15 दिसम्बर 2010

सं० 2 स्था०-217/10-2245/ वि०सं०—बिहार सेवा संहिता के नियम-73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-7-महा०-01/2005-1500वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499, दिनांक

12 अप्रैल 2005 के अनुसरण में श्री मुमताजुल हक, प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

29 नवम्बर 2010

सं०1 स्था०-119/10-2170/वि०स०—बिहार सेवा संहिता के नियम-73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-7-महा०-01/2005-1500वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499, दिनांक 12 अप्रैल 2005 के अनुसरण में श्री बैकुन्त ठाकुर, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 30 नवम्बर 2010 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

29 नवम्बर 2010

सं०1 स्था० 120/10-2173/वि०स०—बिहार सेवा संहिता के नियम-73 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 3 ए०-7-महा०-01/05-1500 वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 के अनुसरण में 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप श्री नकी अहमद खाँ, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा को दिनांक 30 नवम्बर 2010 के अप० से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

28 नवम्बर 2010

सं० 1 स्था०-14/09-2164/वि०स०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1777, दिनांक 24 सितम्बर 2010 द्वारा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत गठित विभागीय स्क्रूनिंग समिति में श्री अरूण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग को वित्त विभाग के पत्रांक-12398/वि०(2), दिनांक 2 नवम्बर 2010 के आलोक में सदस्य मनोनीत किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव।

13 अक्टूबर 2010

सं० 1 स्था० 110/10-1888/वि०स०—बिहार सेवा संहिता के नियम-73 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 3 ए०-7-महा०-01/05-1500 वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 के अनुसरण में 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र मिश्र, प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा को दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के अप० से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया, अवर सचिव।

19 अक्टूबर 2010

सं० 1 स्था०-59/10-1900 / वि०स०—बिहार विधान-सभा सचिवालय में आदेशवाहक जमादार के 1(एक) रिक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्नप्रकार से किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|--------|
| (1) श्री शंभुदयाल सिंह, उप-सचिव | - | सभापति |
| (2) श्री ताराचन्द्र रजक, अवर सचिव | - | सदस्य, |
| (3) श्री मो० नियाज अहमद, प्रशासी पदाधिकारी | - | सदस्य। |

समिति को डेढ़ महीने के अन्दर चयन की प्रक्रिया पूरी कर अपनी अनुशंसा सचिव, बिहार विधान-सभा को सौंपने का निदेश दिया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

19 अक्टूबर 2010

सं० 1 स्था०-59/10-1898/ वि०सं०—मा० अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने बिहार विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली-1964 के नियम-4 (1) (क) एवं 4 (2) (क) के साथ नियम-5 में अंकित प्रावधानों के अंतर्गत आदेशवाहक जमादार के पद पर प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित किये हैं :-

1. आदेशवाहक जमादार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये तीन सदस्यों की एक समिति का गठन ;
2. आदेशवाहक जमादार पद की अर्हता एवं पात्रता के लिये उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण और आदेशवाहक अनुसेवक / अनुसेवक के रूप में सभा सचिवालय में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी होना ;
3. आदेशवाहक जमादार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा आठवीं कक्षा स्तर की विभागीय लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन करना, जिसमें लिखित परीक्षा के लिये 90 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित किया जाना तथा उस आधार पर परीक्षाफल घोषित करना । साक्षात्कार लेने के साथ ही चयन समिति की साक्षात्कार में शारीरिक, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव की जाँच करने के साथ-साथ उनके कार्य दक्षता पर भी ध्यान देकर चयन किया जाना ;
4. सभा सचिवालय के दोनों भवनों के सूचना पट पर यह अधिसूचना प्रकाशित किया जाना तथा आवेदन करने के लिए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित किया जाना ;
5. लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का चयन सचिव, बिहार विधान-सभा द्वारा किया जाना ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव ।

31 मार्च 2011

सं० आवास-13/10-937/ वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने वर्ष 2011-2012 के लिए बिहार विधान-सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-

श्रीमती बीमा भारती,	सं०वि०सं०	सभापति
डा० अच्युतानन्द,	सं०वि०सं०	सदस्य
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव,	सं०वि०सं०	सदस्य
श्रीमती सुनीता सिंह,	सं०वि०सं०	सदस्या
श्री संतोष कुमार निराला,	सं०वि०सं०	सदस्य
श्री सुमीत कुमार सिंह,	सं०वि०सं०	सदस्य ।

श्रीमती बीमा भारती, सं०वि०सं० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
मु० जैनूल, उप-सचिव ।

31 मार्च 2011

सं० शून्यकाल-31/10-939/वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने वर्ष 2011-2012 के लिए बिहार विधान-सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-

श्री अवनीश कुमार सिंह,	सं०वि०सं०	-	सभापति
श्री अशोक कुमार यादव,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
डा० सुनील कुमार,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्री सुभाष सिंह,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्री जनक सिंह,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्री अनंत कुमार सिंह,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्री रणधीर कुमार सोनी,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्रीमती अन्नु शुक्ला,	सं०वि०सं०	-	सदस्या
श्री सुरेन्द्र मेहता,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्री अखतरूल इसलाम शाहिन,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्री सोमप्रकाश सिंह,	सं०वि०सं०	-	सदस्य
श्रीमती मनोरमा प्रसाद,	सं०वि०सं०	-	सदस्या ।

श्री अवनीश कुमार सिंह, सं०वि०सं० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
मु० जैनूल, उप-सचिव ।

19 अप्रैल 2011

सं० कृ०उ०वि०सं०-01/2011-1073/वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 934, दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने श्री कुमार शैलेन्द्र, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या-152, बिहपुर को कृषि उद्योग विकास समिति के बदले वर्ष 2011-12 के लिए गठित याचिका समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है ।

अधिसूचना निर्गत की तिथि से माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र, सं०वि०सं० कृषि उद्योग विकास समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राजकिशोर रावत, उप-सचिव ।

5 मई 2011

सं० सी०टी०-17/2002-876/वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पुस्तकालय में समाचार पत्र वर्ष 2004 से 2008 तक, कतरन किये गये समाचार पत्र वर्ष 2004 से 2009 तक तथा पत्र-पत्रिकाएँ वर्ष 2008 तक को पूर्व गठित समिति द्वारा रद्द घोषित करने के पश्चात् इनकी निलामी हेतु निम्न रूप में समिति को पुनर्गठित किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|--------|
| (1) प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा | - | सभापति |
| (2) उप-सचिव, पुस्तकालय शाखा | - | सदस्य |
| (3) उप-सचिव, लेखन सामग्री शाखा | - | सदस्य |
| (4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| (5) श्री प्रमोद कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी | - | सदस्य |

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
गिरीश झा, प्रभारी सचिव ।

25 मई 2011

सं०1 स्था०-91/2010-1061—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 3/आर-1-46/2000-2492, दिनांक 30 नवम्बर 2005 के अध्याय 2 की कडिका -3 (1), (2), (5), (6) तथा अध्याय- 3 की कडिका - 4 (2), (3), (4), (5), कडिका-5, कडिका-6, कडिका-8 एवं अध्याय-4 की कडिका-9 (1), (2) के साथ संशोधित अधिसूचना संख्या 3/आर-1-46/2000-का०-1468, दिनांक 25 अप्रैल 2007 को सभा सचिवालय में दिनांक 08 नवम्बर 1996 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

28 अप्रैल 2011

सं० 2 स्था०-46/11-797/वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499, दिनांक 12 अप्रैल 2005 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-73 के अनुसरण में श्री चन्द्रमोहन झा, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30 अप्रैल 2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

1 जुलाई 2011

सं०1 स्था०-90/09-1380/ वि०स०—बिहार विधान-सभा सचिवालय में उप-सचिव एवं अवर सचिव के पदों पर प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्न रूप से किया जाता है :-

- | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|--------|
| (1) | श्री गिरीश झा, | प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा | - | सभापति |
| (2) | श्री अरूण कुमार सिंह, | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (3) | श्री नवनीत रंजन तिवारी, | विशेष कार्य पदाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग | - | सदस्य |
| (4) | श्री भगत चौधरी, | उप-सचिव, गृह (विशेष) विभाग | - | सदस्य |
| (5) | श्री राज किशोर रावत, | उप-सचिव, बिहार विधान-सभा (अनुसूचित जाति के सदस्य) | - | सदस्य |

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
गिरीश झा, प्रभारी सचिव ।

27 दिसम्बर 2010

सं०2 स्था०-205/10-2333/वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2), दिनांक-24. मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499, दिनांक 12 अप्रैल 2005 के अनुसरण में श्री अवनीन्द्र नाथ मिश्र, प्रशासी पदाधिकारी (पुस्तकालय), बिहार विधान-सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय
पत्र संख्या कार्य०का०सू०-05/2011-915/वि०स० ।

प्रेषक,

श्री गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

राज्यपाल के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 30 मार्च, 2011 ई० ।

विषय:- पंचदश बिहार विधान-सभा के द्वितीय सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह सूचित करना है कि पंचदश बिहार विधान-सभा का द्वितीय सत्र जो तिथि 22 फरवरी, 2011 से प्रारम्भ हुआ था, आज तिथि 30 मार्च, 2011 को सभा की बैठक के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया ।

इस पत्र की प्रति सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा अन्य सभी विभागों को यथापूर्व की भाँति सूचनार्थ भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,
गिरीश झा, प्रभारी सचिव ।

सं० वि.प्रा. (I) ब³-71/2004 (पार्ट)-1901
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

12 अगस्त 2011

विषय : माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगमों से प्रतिनियुक्त सम्प्रति विभागान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत एवं अर्हता प्राप्त चार अभियंताओं को पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त व्याख्याताओं के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से सशर्त समायोजन की स्वीकृति के संबंध में ।

आयुक्त-सह-सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के कार्यालय कक्ष में दिनांक 28 सितम्बर 1994 को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत तकनीकी संस्थानों में शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं विश्व बैंक के तहत सृजित पदों को भरने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि "विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों एवं उपक्रमों के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति 3 (तीन) वर्षों के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।"

2. उक्त निर्णय के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न निगमों/ बोर्ड से विभिन्न कोटि के कुल 18 अभियंताओं का विभागीय अधिसूचना संख्या 3223, दिनांक 23 दिसम्बर 1994 द्वारा विभागान्तर्गत विभिन्न रा0 पो0 संस्थानों के रिक्त विभागाध्यक्ष/ वरीय व्याख्याता/ व्याख्याता के पदों पर प्रतिनियुक्ति तीन वर्षों के लिए की गई थी। उक्त तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित होती रही ।

3. राज्य विभाजन के फलस्वरूप उक्त 18 अभियंताओं में से छः अभियंताओं की सेवा झारखण्ड राज्य को प्राप्त हुई। 03(तीन) अभियंता विभाग की सेवा छोड़कर अन्यत्र चले गये। 05(पाँच) अभियंता बोर्ड/निगम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा के तहत सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। वित्त विभाग का परामर्श है कि मात्र कार्यरत अभियंताओं का समायोजन न्यायादेश के आलोक में किया जाय। उक्त परामर्श के आलोक में बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत चार अभियंताओं, जो कि उक्त अर्हता पूरी करते हैं, के समायोजन का प्रस्ताव है।

4. प्रतिनियुक्त अभियंताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपनी सेवा समायोजन हेतु विभिन्न समादेश याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें वादी के समायोजन की याचना को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा एल.पी.ए. नं.-720/06, 787/06 एवं 788/06 माननीय उच्च न्यायालय पटना

में दायर किया गया, जिसमें अन्तरिम आदेश के तहत इन अभियंताओं की सेवा यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया तथा एल.पी.ए. का अन्तिम निर्णय दिनांक 19 अप्रैल 2010 के अनुसार तीन माह के अन्दर प्रतिनियुक्त कर्मियों की सेवा पुर्नवास या समायोजन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विधि सम्मत नीतिगत निर्णय लिये जाने का आदेश दिया गया तथा तब तक के लिए इनकी सेवा को यथा स्थिति में बहाल रखे जाने का भी आदेश दिया गया।

5. उपर्युक्त एल.पी.ए. में पारित आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2011 को निरस्त कर दिया गया।

6. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगमों से प्रतिनियुक्त सम्प्रति विभागान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत एवं अर्हता प्राप्त चार अभियंताओं यथा (1) श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक), बिहार स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, विस्कोमान भवन, पटना (2) श्री अवधेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक), बिहार स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, विस्कोमान भवन, पटना (3) श्री शैलेश बिहारी पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिकी), बिहार स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, विस्कोमान भवन, पटना तथा (4) श्री सुशील कुमार मिश्र, सहायक अभियंता (विद्युत), बिहार स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, विस्कोमान भवन, पटना का समायोजन पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त व्याख्याताओं के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन समायोजित किया जाय।

- (क) अभियन्ता जिस आरक्षण श्रेणी में आते हैं तदनुसार ही आरक्षण बिन्दु के आधार पर इनका समायोजन किया जायेगा।
- (ख) इनके समायोजन का वेतनमान वही होगा जो विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के लिए स्वीकृत वेतनमान हैं।
- (ग) समायोजन के पश्चात् इन व्याख्याताओं के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही होगी, जो सामान्य वित्त नियमावली (GFR) के अन्तर्गत प्रावधानित है।
- (घ) इन व्याख्याताओं के समायोजन के वेतनमान में पैतृक निगम/बोर्ड में प्राप्त हो रहे वेतन संरक्षण का लाभ बिहार सेवा संहिता में निहित प्रावधान के अनुसार अनुमान्य होगा।
- (ङ) इन व्याख्याताओं के समायोजन के पश्चात् इनके समायोजन की तिथि से राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के संवर्ग में इनकी वरीयता की गणना की जायेगी।
- (च) बोर्ड/निगम में बितायी गई सेवा अवधि का विनियमन का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात् बोर्ड/निगम में बिताई गई सेवा अवधि की गणना इनके पेंशन प्रयोजनार्थ नहीं की जा सकेगी; किन्तु विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत व्याख्याताओं की भौति इनके अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनुमान्य होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव

सं० कृ०ग०सां० 3-4/2011-24/रा०

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(कृषि गणना)

संकल्प

31 मई 2011

विषय :- कृषि गणना 2010-11 के क्रियान्वयन के निमित्त जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि वर्ष 2010-11 को संदर्भ वर्ष मानकर कृषि गणना 2010-11 एवं आदान सर्वेक्षण 2011-12 कराने का निर्णय लिया गया है। कृषि गणना नियमावली के आलोक में बिहार राज्य में कार्यक्रम के संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर समाहर्ता की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है।

- | | | |
|------------------------------|---|---------|
| (1) समाहर्ता | — | अध्यक्ष |
| (2) उप-विकास आयुक्त | — | सदस्य |
| (3) अपर समाहर्ता संयोजक | — | सदस्य |
| (4) जिला कृषि पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (5) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी | — | सदस्य |

यह समिति कृषि गणना कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग, विभिन्न विभागों में समन्वय तथा जिला स्तर पर कृषि गणना कार्य की समीक्षा करेगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/समाहर्ताओं/सदस्यों को प्रसारित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव ।

सं० कु०ग०सां० 3-4/2011-40/रा0
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(कृषि गणना)

संकल्प

29 जून 2011

विषय - कृषि गणना 2010-11 के क्रियान्वयन के निमित्त राज्य स्तर पर समन्वय समिति का गठन ।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि वर्ष 2010-11 को संदर्भ वर्ष मानकर कृषि गणना 2010-11 एवं आदान सर्वेक्षण 2011-12 कराने का निर्णय लिया गया है। कृषि गणना नियमावली के आलोक में बिहार राज्य में कार्यक्रम के संचालन एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर प्रधान सचिव-सह-राज्य कृषि गणना आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है ।

(1)	प्रधान सचिव-सह-राज्य कृषि गणना आयुक्त	—	अध्यक्ष
(2)	विशेष/अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग	—	सदस्य
(3)	विशेष/अपर सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
(4)	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी	—	सदस्य
(5)	निदेशक, पंचायती राज	—	सदस्य
(6)	निदेशक, कृषि	—	सदस्य
(7)	कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि गणना) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	—	सदस्य
(8)	उप-सचिव, प्रभारी कृषि गणना, राजस्व एवं भू0सु0 विभाग	—	सदस्य सचिव
(9)	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र बिहार राज्य इकाई, सूचना एवं प्राद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि	—	सदस्य
(10)	उप-निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भू0सु0 विभाग	—	सदस्य

यह समिति कृषि गणना कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में समुचित मार्गदर्शन देगी, विभागों से समन्वय स्थापित करेगी तथा कृषि गणना की प्रगति की समीक्षा करेगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सरकार सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/तथा सभी सदस्यों को प्रेषित की जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 25-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>